

पोस्टर फॉर टूमॉरो 2016: कल का एक समुदाय

जैसा की आप सब जानते हैं पोस्टर फॉर टूमॉरो ने पिछले सात वर्षों में अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता से लेकर स्वास्थ्य के मूलाधिकार तक, प्रत्येक वर्ष एक मूलभूत मानव अधिकार पर ध्यान केन्द्रित किया है। हमें अब तक की अपनी उपलब्धियों और इस समुदाय पर गर्व है। हालांकि हम यह भी नहीं नकार सकते की 2009 से अब तक समाज में कोई खास बदलाव नहीं आया है। बहुत से लोगों को उचित भत्ता नहीं मिलता, महिलाओं के साथ अभी भी पुरुषों जैसा व्यवहार नहीं होता और मृत्युदण्ड अभी भी दुनिया के कई हिस्सों में लागू है।

वैसे तो हम इन मुद्दों को हल करने का प्रयास नहीं कर रहे, किन्तु हमें यह आभास है की 2016 में कुछ नयी नीति अपनायी होगी।

हम मानते हैं की प्रत्येक वर्ष हमने जो पोस्टर प्राप्त किये है उनमें सामाजिक संवाद स्थापित करने की काफी सम्भावना है। एक साथ हमने इन मुद्दों पर काफी जागरूकता पैदा की है और पोस्टर फॉर टूमॉरो के बाहर भी सोशल मीडिया से लेकर पेरिस में आतंक पर लोगों की प्रतिक्रिया, यही दर्शाती है कि एक सशक्त कलात्मक छवि पर लोग एकजुटता दिखाते है। यह आशाजनक है और 2016 में इसी की आवश्यकता है। एक विश्व जहाँ सीमायें कम से कम महत्त्व रखें, हम सब अब पहले से कहीं अधिक एक मानवजाति है। इससे फर्क नहीं पड़ता हम कहाँ रहते है, युद्ध और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हम सब असहाय है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में एक साथ रहते है और हमारे जीवन और यहाँ तक की सुख का, एक ही रास्ता है, कि साथ मिलकर काम किया जाये “आनेवाले कल के लिए”।

यदि हम एक बेहतर भविष्य की कामना करते है तो हमें वैश्विक स्तर पर यह काम करना होगा। हमें विरोध की राजनीति छोड़नी होगी और स्वयं एवं अन्य के सही-गलत के बारे में सोचना बंद करना होगा। हमें आपसी मतभेद बातचीत करके दूर करने होंगे और अपना भविष्य निश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे। ज़ाहिर तौर पर हमारी सरकारें (राजनीतिक और व्यावसायिक कारणों से) कोई कदम नहीं उठाएंगी, अन्यथा हम उसकी मांग न करें। हमें मूल से बदलाव की आवश्यकता है, हमसे बदलाव।

ऐसा केवल उसी दुनिया में हो सकता है जहाँ स्वयं में शांति हो, जहाँ सब सामान हों, धर्म और राष्ट्रीयता की चिप्पी से बंटे न हो।

इसलिए हमारा आग्रह है आपसे इस अभियान में जुड़ने का, जिससे दुनिया में सब एक सामान हों, यदि यह परम मूलाधिकार नहीं है तो फिर क्या है ?

हम आपकी सहायता चाहते है एक ऐसे कल के समुदाय के निर्माण के लिए जिसमें लोग एक दूसरे से बात करें, सवाल पूछें, जवाब सुने और उस पर काम करें, एकजुट होकर।

हमें उम्मीद है आप इस नयी दिशा में हमारे भागीदार जरूर बनेंगें।

हम शायद कुछ न बदल पाए, किन्तु यह आवश्यक भी नहीं। यह मात्र एक शुरुआत है। शायद कोई सुने, हमारा व्याख्यान जो हमारे पहले संस्करण में कहा गया था – शुरुआत किसी एक से होती है, दस, हजार लोगों के आंदोलन को नकारा नहीं जा सकता।

एक संक्षिप्त विवरण सोमवार 10 मार्च को प्रकाशित होगा, कृपया इस जगह के देखते रहें।

Dates for your diary

March 10th - Call for Entries Open.

July 10th - Competition Closes

Contact

4tomorrow association
16 esplanade nathalie sarraute - 75018 PARIS
T. +33 14205 8887
www.posterfortomorrow.org

info@posterfortomorrow.org
facebook.com/poster4tomorrow
Twitter @poster4tomorrow